

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 20.10.2021

थाना निगोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल सहित अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद,

लूट/चोरी व गैगस्टर एक्ट में जा चुके हैं जेल ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना निगोही की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

दिनांक 20.10.21 को थाना निगोही की पुलिस टीम तलाश वांछित, वारन्टी अभियुक्तों व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में कजरीनूरपुर चौराहे पर चैकिंग कर रहे थे कि निगोही की तरफ से एक मो० सा० पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये जो पुलिस टीम को देखकर मो० सा० पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे तो शक होने पर पुलिस टीम द्वारा बिना देरी किये 1-अरुण पुत्र हरीशरण द्विवेदी निवासी ग्राम जिन्दपुरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 2-आकाश पुत्र विजय कुमार तिवारी निवासी ग्राम जिन्दपुरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को कजरीनूरपुर चौराहे से समय करीब 9.10 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनकी जामा तलाशी ली गयी तो अरुण के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व आकाश को कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया तथा 01 अदद मोबाइल VIVO कम्पनी रंग नीला बरामद किया गया बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल हम दोनों ने 3-4 दिन पहले एक दुकान से चोरी किया किया था बेचने के लिये शाहजहाँपुर जा रहे थे । मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में मु०अ०स० 477/21 धारा 380 IPC पंजीकृत है । जिसकी शिनाख्त वादी मुकदमा द्वारा मौके पर आकर की गयी । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय को समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-अरुण पुत्र हरीशरण द्विवेदी निवासी ग्राम जिन्दपुरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ।
 - 2-आकाश पुत्र विजय कुमार तिवारी निवासी ग्राम जिन्दपुरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
- अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2- 01 अदद चाकू नाजायज
- 3- 01 अदद मोबाइल विवो कम्पनी रंग नीला चोरी किया गया
(सम्बन्धित मु०अ०स० 477/21 धारा 380/411 भादवि)
- 4- 01 अदद मो० सा० नं० UP 27 X 7990 होण्डा साईन

गिरफ्तार अभियुक्तों आकाश व अरुण का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 72/18 धारा 457/380 भादवि थाना निगोही शाहजहाँपुर
- 2- मु०अ०सं० 70/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना निगोही शाहजहाँपुर
- 3- मु०अ०सं० 187/18 धारा 392 भादवि थाना निगोही शाहजहाँपुर
- 4- मु०अ०सं० 128/18 धारा 392/411 भादवि थाना निगोही शाहजहाँपुर

- 5- मु0अ0सं0172/18 धारा 411/ 41/102 भादवि थाना निगोही शाहजहांपुर
- 6- मु0अ0सं0134/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना निगोही शाहजहांपुर
- 7- मु0अ0सं0 477/21 धारा 380 IPC थाना निगोही शाहजहांपुर
- 8- मु0अ0सं0 479/2021 धारा 3/25 A ACT बनाम अरुण थाना निगोही शाहजहांपुर
- 9- मु0अ0सं0 480/21 धारा 4/25 A ACT बनाम आकाश थाना निगोही शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- व0उ0नि0 श्री दिलीप सिंह भदौरिया थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।
- 2- उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 3- का0 धीरज कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 4- का0अनिल कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
- 5- रि0का0 रोहित कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।